



तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन के लिए, माई मेन स्ट्रीट कम्युनिटी एक्टिवेटर प्रोग्राम के द्वारा सहायता मिली

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, इसके साझेदारों, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.) (Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA) और 8 80 सिटीज (8 80 Cities) के साथ इकट्ठे, 223,650 डॉलर प्राप्त करने के लिए चुना गया है, यह [माई मेन स्ट्रीट कम्युनिटी एक्टिवेटर प्रोग्राम \(My Main Street Community Activator Program\)](#) के द्वारा मिलेगा, जो एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Activate Downtown Brampton) के लिए है, जो डाउनटाउन ब्रैम्पटन के लेनवेज और अक्टूबर 2022 तक बनने वाली पब्लिक इकट्ठ वाली जगहों पर इंटरएक्टिव इंस्टॉलेशनस और म्युजिकल परफॉर्मेंसेज की एक सीरीज है।

एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन का उद्देश्य, सामाजिक संबंध और नागरिक भागीदारी के लिए अवसरों को बढ़ाना और लोकल आर्थिक गतिविधि को तेज़ करना है। इस सीरीज में मुफ्त साप्ताहिक म्युजिकल एक्टिवेशनस शामिल होंगे, जिनमें विविध लोकल कलाकार, ब्रैम्पटन के निवासियों तथा आगंतुकों (विजीटर्स) के आनंद लेने के लिए, शहर की सम्पन्न सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएंगे। ये एक्टिवेशनस, पूरे डाउनटाउन में, 15 अक्टूबर तक, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, प्रत्येक शनिवार को होंगे। इसकी जगहें, [यहां \(here\)](#) देखें।

निवासी, [एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन \(Activate Downtown Brampton\)](#) वेबसाइट पर जाकर और गर्मी तथा पतझड़ के दौरान इन पब्लिक जगहों पर पॉप अप एन्गोजमेंट्स में शामिल होकर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन की पब्लिक जगहों को आकर्षक और सक्रिय बनाने के लिए विचार भी साझे कर सकते हैं।

माई मेन स्ट्रीट कम्युनिटी एक्टिवेटर (My Main Street Community Activator), एक दो-वर्षीय, 23.25-मिलियन डॉलर का निवेश है, जो कैंनेडा सरकार के द्वारा [फेडरल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एजेंसी फॉर साउदर्न ओनटैरियो \(Federal Economic Development Agency for Southern Ontario\)](#) (FedDev ओनटैरियो) के द्वारा किया जा रहा है, यह, [कैनेडियन अर्बन इंस्टीट्यूट \(Canadian Urban Institute\)](#) (CUI) और [इकोनॉमिक डिवेलपर्स काउंसिल ऑफ ओनटैरियो \(Economic Developers Council of Ontario\)](#) (EDCO) के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन के द्वारा, यह सीरीज एक अधिक आकर्षक डाउनटाउन बनाने में मदद करेगी, जो आगंतुकों को आकर्षित करता है और कोविड -19 (COVID-19) से लोकल कारोबारों की बहाली में हिमायत करते हुए, दुकानों, रेस्टोरेंट्स और रोमांचक नई पब्लिक जगहों पर आगंतुकों की संख्या में वृद्धि करता है।

इंटीग्रेटिड डाउनटाउन प्लान के बारे में

क्षेत्र में, वाटरमेन और सेनिटरी सीवरों को बदलने के लिए, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के द्वारा निर्माण शुरू करते हुए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में परिवर्तन जारी है। उसके बाद सिटी का काम होगा, जैसे साइडवॉक्स को बदलना तथा अधिक चौड़े करना, सड़कों की मुरम्मत और उनकी सतह दुबारा बनाना।

ये एक्टिवेशन, सिटी के इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान (आई.डी.पी.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्लान, ब्रैम्पटन की कई जारी पहलकदमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, काम करने के लिए एक रोडमैप है। संभावना है कि यह, भविष्य की वृद्धि और कार्यनीति संबंधी निवेश में मार्गदर्शन करेगा।

आई.डी.पी. (IDP) के मार्गदर्शन वाले सिद्धांत, भागीदारी, इनोवेशन और स्थिरता हैं। यह ब्रैम्पटन को महत्वपूर्ण आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) की स्थिति में लाते हुए – इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, शहरी डिज़ाइन, ज़मीन के प्रयोग और प्रोग्रामिंग दखलों को कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा।

आई.डी.पी. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/IDP पर जाएं।

डाउनटाउन ब्रैम्पटन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

हवाले

“हमारी सरकार, कम्युनिटीज की मेन स्ट्रीट्स को पुनः बहाल करने हेतु उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। माई मेन स्ट्रीट, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी हिमायत प्रदान कर रहा है, जो ऐसी इंस्टालेशन, कार्यक्रमों और गतिविधियों के द्वारा नेबरहुड्स को नया बनाएंगे, जो नौकरियां पैदा करने वाले और लोकल अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए, भागीदारी वाले, इनोवेटिव और आकर्षक हों।”

- *माननीय हेलेना जैजेक (Helena Jaczek), फेडरल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एजेंसी फॉर साउदर्न ओनटैरियो (FedDev ओनटैरियो) के लिए जिम्मेदार मंत्री*

“अपने भागीदारों के साथ, हम गुणवत्तापूर्ण शहरी स्थान और एक उन्नत पैदल यात्री क्षेत्र बनाकर डाउनटाउन ब्रैम्पटन की क्षमता को पुनर्जीवित करने और अनलॉक करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस गर्मी निवासियों को, एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस बारे में अपने विचार साझे करें कि हम हमारी पब्लिक जगहों में सुधार कैसे कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार को लाइव म्यूजिक का आनंद लेने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे शानदार लोकल कारोबारों की हिमायत करना जारी रखें।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे डाउनटाउन में परिवर्तन करने और ब्रैम्पटन के निवासियों तथा आगंतुकों के आनंद लेने के लिए, आकर्षक पब्लिक जगहें बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हम, इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए FedDev ओनटैरियो का

धन्यवाद करते हैं और एक अधिक आकर्षक डाउनटाउन बनाने के लिए हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम करने और हमारे लोकल कारोबारों की हिमायत जारी रखने के लिए उत्साहित हैं, जब वे कोविड-19 के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाईस 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम हमारे निवासियों के लिए जीवन क्वालिटी में सुधार करने और लोकल निवेशों तथा साझेदारियों के द्वारा, लोकल कारोबारों की हिमायत करने के लिए समर्पित हैं। एक्टिवेट डाउनटाउन ब्रैम्पटन, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में सामाजिक संबंध और नागरिक भागीदारी के लिए अवसरों में वृद्धि करेगा और लोकल आर्थिक गतिविधि को तेज करेगा।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम, इस गर्मी और पतझड़ में हमारे डाउनटाउन को एक्टिवेट करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और 8 80 सिटीज के साथ मिलकर काम करने और कम्युनिटी प्लेसमेंकिंग प्रयासों के द्वारा, हमारे शानदार लोकल कारोबारों की हिमायत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।”

- *कैरी लेह पर्सिवल (Carrie Leigh Percival), चेयर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए.*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

[8 80 Cities](#), एक गैर-लाभ संगठन है, जिसका मिशन, हमारे लोगों के लिए अधिक स्वस्थ, अधिक निष्पक्ष और स्थिर शहर बनाने के लिए, कार्रवाई तेज़ करना और यथास्थिति को चुनौती देना है। हमने साधारण परंतु प्रभावी सवाल पर विचार किया है- कितना अच्छा होता कि हमने जो भी हमारे शहरों में किया है, वह 8 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष के बुजुर्ग के लिए भी बढ़िया होता? हमें यकीन है कि इस सवाल से शुरुआत करने से, हमारे लोगों के लिए शानदार शहर बनाने में मदद मिल सकती है। हमारी टीम ने पूरी दुनिया में, पब्लिक जगहों संबंधी परिवर्तनशील प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करते हुए, 350 से अधिक शहरों में काम किया है।

[The Downtown Brampton Business Improvement Area](#), कमर्शियल क्षेत्र का प्रचार एक आकर्षक कारोबार और खरीदारी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर करता है। विशेष कार्यक्रमों, विज्ञापनों और सौंदर्यीकरण प्रोग्रामों के द्वारा, हमारा उद्देश्य क्षेत्र के लोगों के दिलों में, खरीदारी करने के लिए, मनोरंजन, काम करने और रहने के लिए एक आकर्षक, खुशनुमा जगह के तौर पर सबसे आगे रखना है।

[Canadian Urban Institute](#), राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जो कैनेडियन सिटी बिल्डिंग में स्थित है — जहां पॉलिसीमेकर, अर्बन प्रोफेशनल्स, सिविक और बिजनेस लीडर्स, कम्युनिटी एक्टिविस्ट और एकेडमिक्स, कई तटों के लोगों को एक-दूसरे के साथ सीख, साझा कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। रिसर्च, भागीदारी और कहानी सुनाने की कला के द्वारा, हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कैनेडा, आकर्षक, निष्पक्ष, रहने योग्य और स्थिर शहर बनाता है। हमें, [Twitter](#), [Facebook](#) और [LinkedIn](#) पर फॉलो करें।

12 से अधिक वर्षों से, कैनेडा सरकार ने, [FedDev Ontario](#) के द्वारा, उन फंडिंग अवसरों और कारोबार संबंधी सेवाओं के द्वारा साउदर्न ओनटैरियो की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विविध बनाने के लिए काम किया है, जो कैनेडा के सबसे अधिक आबादी वाले रीजन में इनोवेशन, नौकरी पैदा करने और वृद्धि करने में सहायता करती हैं। एजेंसी ने प्रभावशाली नतीजे प्रदान किए हैं, जिन्हें साउदर्न ओनटैरियो के कारोबारों में देखा जा सकता है, जो इनोवेटिव

टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं, अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं, नौकरियां पैदा कर रहे हैं और पूरे रीजन की कम्युनिटीज में आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। हमारे [pivotal projects](#), हमारे [Southern Ontario Spotlight](#), भंडे FedDev ओनटैरियो के [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) और [LinkedIn](#) की पड़ताल करके, उन प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, जो एजेंसी साउदर्न ओनटैरियो में ला रही हैं।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca

जिया बेनी (Jiya Benni)
प्रोजेक्ट मैनेजर, 8 80 सिटीज
jbenni@880cities.org
647 800 5590

सूज़ी गाडफ्रॉए (Suzy Godefroy)
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया
Suzy.Godefroy@brampton.ca

निक हेंसन (Nick Hanson)
कम्युनिकेशन्स लीड
कैनेडियन अर्बन इंस्टीट्यूट
media@mymainstreet.ca

मोनिका ग्रैनाडोस (Monica Granados)
प्रेस सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ द हॉन., हेलेना जैजेक
फेडरल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एजेंसी फॉर साउदर्न ओनटैरियो
के लिए जिम्मेदार मंत्री
monica.granados@feddevontario.gc.ca